

Anant Raj Limited

(Formerly Anant Raj Industries Limited)

CIN : L45400HR1985PLC021622

Head Off : H-65, Connaught Circus, New Delhi-110 001

Tel : 011-43034400, 23324127, 23323880 Fax : 011-43582879

E-mail : info@anantrajlimited.com Website : www.anantrajlimited.com

Regd. Office : CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Haryana-122051

Telefax : (0124) 4265817



ARL/CS/ 12958

September 07, 2019

The Manager Listing Department The BSE Limited, Phiroze Jee Jee Bhoj Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001 Scrip code: ANANTRAJ 515055	The Secretary, The National Stock Exchange of India Limited, “Exchange Plaza”, 5th Floor, Plot No. C/1, G-Block, Bandra – Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051 Scrip code: NSE ANANTRAJ EQ
--	--

Sub: Submission of Newspaper Advertisement for Notice of 34TH Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure

Dear Sir,

Please find enclosed herewith a copy of Newspaper Advertisement published on 7th September, 2019 in Financial Express and Jansatta regarding the “Notice of 34th Annual General Meeting, E-voting information and Book Closure” in terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on records.

Thanking You,

For Anant Raj Limited

Manoj Pahwa
(Company Secretary)
A-7812

Encl: As above

CCL INTERNATIONAL LIMITED
CIN: L26940DL1991PLC044520
Regd. Office: M-4, Gupta Tower, B 1/1, Commercial Complex, Azadpur, New Delhi-110033
Phone No.: 011-42142258
E-mail: cmpeoc@ccil.com Website: www.evocretaindia.com

NOTICE
Transfer of unclaimed dividend and equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

Shareholders are hereby informed that the unclaimed dividend for the financial year ended 31st March 2012 and the corresponding equity shares of the company in respect of which dividend entitlements have remained unclaimed for seven consecutive years from the financial year ended 31st March 2012 will be due for transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF) on 28.11.2019, pursuant to the provisions of section 124 of the Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"). The names of the concerned Members and their folio numbers or DP ID and Client ID numbers are available on the company's website www.evocretaindia.com. Individual letters in this regard have also been sent to the concerned shareholders at their address registered with the company.

The aforesaid shareholders may lodge their claims in respect of the above with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Alankit Heights, 3E/7, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 or may contact to company corporate office at C-42, RDC, rajnagar, Ghaziabad by 27.11.2019. In the event any valid claim is not received by CCL by that date, the Company, in accordance with the aforesaid provisions of law, shall transfer such dividend and shares to the IEPF.

For any queries on the above matter, Shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e Mr. J.K.Singla / Mr. Lalita Prasad M/S Alankit Assignments Ltd., RTA Division, Alankit Heights, 3E/7, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 Tel: 91-11-4254 1958 Email: alankit_cil@alankit.com / lalitaip@alankit.com

FOR CCL INTERNATIONAL LIMITED
Sd/-
Rama Gupta
Director

Date: 06.09.2019

ऋण वसूली न्यायाधिकरण- I, दिल्ली
सुपुंज लाल, जीवन तारा बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ओ. ए. नं. 442 / 2015

पंजाब एण्ड सिंध बैंक विरुद्ध आवेदक

अनू कपूर एवं अन्य प्रतिवादी

सेवा में,
1. श्रीमती अनू कपूर, निवासी: सी-41, प्रथम तल, विष्णु मार्टिन, दिल्ली-110018
2. श्री अनू कपूर, निवासी: सी-41, प्रथम तल, विष्णु मार्टिन, दिल्ली-110018
3. श्री रविंदर सिंह, निवासी: डब्ल्यूजेड-331, बी गली नं. 19 द्वितीय तल, संत गड एस्टेट्स, नई दिल्ली-110018
4. श्री जतिंदर सिंह, निवासी: डब्ल्यूजेड-331, बी गली नं. 19 द्वितीय तल, संत गड एस्टेट्स, नई दिल्ली-110018

जबकि उपरोक्त आवेदक ने आपके विरुद्ध रु. 14,49,294/- (रुपय चौदह लाख उनवस्राय हजार दो सौ चौराबे मात्र) की वसूली हेतु एक बाद स्थापित किया है तथा जबकि न्यायाधिकरण को संतोषजनक रूप से यह शर्तों का युक्त है कि आवेदक को साधारण रूप से सूचना दिया जाना समान नहीं है, इसलिए, विभाजन के रूप में इस सूचना के माध्यम से आपको दिनांक 09.09.2019 को पूर्ण, 10.30 बजे तक सूचना रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। ध्यान दें कि यदि आप उपरोक्त तिथि को इस न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे, याद की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। मेरे हस्ताक्षर और इस न्यायाधिकरण की मोहर के तहत 21 जून, 2019 को दिया गया।

न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा रजिस्ट्रार

SHIVKAMAL IMPEX LIMITED
Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016
Tel: 011-26192964, e-mail: info@shivkamalimpex.com; shiv_kamal@yahoo.com
Website: www.shivkamalimpex.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given pursuant to regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday, September 13, 2019** at 12:30 p.m. at the Registered Office of the Company at Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.), New Delhi-110016 Inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

Further, in terms of Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by designated persons under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015, the trading window has been closed for all Designated persons and their immediate relatives from **July 01, 2019 to September 15, 2019** (both days inclusive).

This information may be accessed on the Company's website at <http://www.shivkamalimpex.com> and may also be accessed on the Stock Exchange's website at <http://www.bseindia.com>.

For Shivkamal Impex Limited
Sd/-
Jyoti Gupta
(Company Secretary & Compliance Officer)

Place: New Delhi
Date: 06.09.2019

PATBACK BUSINESS LIMITED
CIN: L74999DL1984PLC018747
(Formerly known as Crazypricing Online Services Limited)
Regd. Office: Shop No. 325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Email: crazypricingdel@gmail.com, Website: www.crazypricingonline.com, Tel.: 011-27860680

NOTICE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 35th Annual General Meeting of the members of Patback Business Limited ("the Company") will be held on Monday, September 30, 2019 at 10:00 p.m. at Shop No. 325, Plot No. 3, Aggarwal Plaza, DDA Community Center, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting").

The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories/Company.

The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice is available on the website of the Company (www.crazypricingonline.com) and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Sundays and Public Holidays, during business hours up to the date of the Meeting.

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the Agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.crazypricingonline.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting facility shall commence on Friday, September 27, 2019 from 9:00 a.m. and end on Sunday September 29, 2019 at 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., Monday September 23, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL, for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Member who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

RECORD DATE
NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Monday September 23, 2019 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the Annual General Meeting.

For and on behalf of the Board
Patback Business Limited
(Formerly known as Crazypricing Online Services Limited)
Sd/-
Kiran Mittal
(Director)
DIN: 00749457

Place: New Delhi
Date: 06.09.2019

कुवर इन्व्हेस्ट्रीज लिमिटेड
सीआईएन: एए74899ए1993पीएलसी056627
पंजी. कार्यालय: डी-1004, पहली मंजिल, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी नई दिल्ली - 110065
फोन नं. 0120-2580 088 / 937, फेक्स: 0120-25805414
ईमेल आईडी: investor.kuwer@gmail.com, info@kuwer.com, Website: www.kuwer.com

27वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को सुबह 11.00 बजे 339, किसान गड, वसन्त कुंज, नई दिल्ली - 110070 में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम सूचना में निर्धारित व्यवसाय निम्नादिष्ट किया जाएगा जो 5 सितम्बर 2019 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना सभी सदस्यों को भेजा गया है।

एतद्वारा आगे सूचना दी जाती है कि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्राधान्यों के अनुसार कम्पनी के सदस्यों की पंजीकृत तथा शेयर अंतरण बहियां मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन सहित) तक 27वीं एजीएम के उद्देश्य से बंद रहेंगी।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार कम्पनी (प्रधान और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार समय समान पर संशोधन किया जाता है और सेवा के विनियमन 44 (सूचीकरण और प्रकटासन) अध्यादेश (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार कम्पनी अपने सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान किया है जो सीडीएसएल द्वारा सफलता करवाया गया।

1. ई-वोटिंग की सुविधा सुक्रवार 27 सितम्बर, 2019 को प्रातः 09:00 बजे से शुरू होगी और रविवार 29 सितम्बर, 2019 को प्रातः 09:00 बजे समाप्त होगी जो सभी शेयरधारकों प्रदान कि जायेगी जो नोटिस का डी-टोट के रूप में शेरों की धारक है। मतदान के लिए सीडीएसएल ई-वोटिंग मॉड्यूल प्रदर्शित किया जाएगा। उक्त तारीख और समय के परे दूरस्थ ई-वोटिंग अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा वोट डालने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तिथि सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 है।

3. एक व्यक्ति, जो सूचना प्राप्त करने के बाद शेयरों को प्राप्त करता है और कट-ऑफ तिथि से पहले कम्पनी का शेयरधारक बन जाता है वह helpdesk.evoting@cdslindia.com / admin@sklyneta.com पर उनक फोनियों स / डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी स. का उल्लेख करते मेल भेज कर लॉगिन-आईडी और पासवर्ड प्राप्त करके रिमोट ई-वोटिंग कर सकता है।

4. मतदान के माध्यम से मतदान की सुविधा भी एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्य, जिन्होंने पहले से ही दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वह अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

5. एक सदस्य दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अपने अधिकार का उपयोग करने के बाद भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन बैठक में फिर से मतदान की अनुमति नहीं होगी।

6. एजीएम का नोटिस कम्पनी की वेबसाइट www.kuwer.com और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध होगा।

7. एक व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्ट्रार में या डिपॉजिटरी द्वारा नाम एनए पर लाभकारी मातिका के रजिस्ट्रार में 23 सितम्बर, 2019 तक दर्ज किया गया है, वोट देने का हकदार होगा।

8. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी किसी भी क्वेरी या शिकायतों के मामले में www.evotingindia.com के सहायता अनुभाग में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और ई-वोटिंग मॉड्यूल देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com ई-मेल करके अथवा टोल फ्री नं. 1800-2000-5533 सम्पर्क करें या तारुण आग्रवाल, संयुक्त प्रबंध निदेशक, investor.kuwer@gmail.com / 011-2580088 से सम्पर्क कर सकते हैं-।

कुवर इन्व्हेस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
संयुक्त प्रबंध निदेशक
दिनांक: 6 सितम्बर, 2019
स्थान: नई दिल्ली

कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स पा. लि.
सीआईएन: एए5101बीएल2001जीओआई112143
पंजीकृत कार्यालय: स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर-8, 5वां तल, 7 लोदी रोड, दिल्ली-110003

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी की 18वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार, 30 सितंबर 2019 को 1100 बजे होटल दि अशोक, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 में सूचना में यथा-निर्धारित कार्यों के लिए होगी, जिसकी सूचना सदस्यों को अलग से भेजी गई है। इसके द्वारा यह भी सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण खाते 25 सितंबर 2019 से 30 सितंबर 2019 तक (दोनों दिन शामिल हैं) वार्षिक आम बैठक और लाभांश, यदि कोई है, के भुगतान के लिए बंद रहेंगे।

कुते कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्रा. लि.
हस्ता/-
(मनीष कुमार)
सीएस-प्रबन्धी

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 6 सितंबर 2019

केन फिन होम्स लि.
गर्गावतल प्लाजा, सी-18, प्रथम तल, आरती, गजानन, गार्गावतल, एन-20100 सफर नं. 0120-408097 मोबाइल नं. 7625079222
ईमेल: ghaziabad@canfinhomes.com, CIN: L85110KA1987PLC008699

कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिपुनिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन फिन होम्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोस्ताहरी ने मांग सूचना दिनांक 03.06.2019 जारी कर अधोस्ताहरी श्री जतिंदर सिंह टाडर, न्यू श्रीमती मंगल टाडर को सूचना की प्रतिकृति को 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित तारीख 19.82,859/- के साथ वार्षिक की तिथि तक अधिनियम दर पर ब्याज वापस लेने का निर्देश दिया था।

अधोस्ताहरी इस तथि को वापस लेने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अधोस्ताहरी, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 3 सितंबर, 2019 को अधोस्ताहरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोस्ताहरी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। अधोस्ताहरी का ब्याज प्रतिभूति परिस्थितियों को विनियमित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों के प्रति आकृष्ट की जाती है। विशेष रूप से अधोस्ताहरी का आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करे तथा अधोस्ताहरी को किसी भी तरह का व्यवसाय न, 19.82,859/- तथा उस पर ब्याज के लिये सीडीएसएल के तहत के अर्थन होंगे।

अचल सम्पत्ति का विवरण
फ्लैट नं. एएए-03, आरएएएए, प्लसवर्डी, नवल नं. 1/496, दुर्गा तल, वीर साहब, एलआईसी, सेक्टर-01, चान्दपुर, गार्गावतल, उतर प्रदेश- 201012, उतर: अन्न सम्पत्ति, पूर्व: फ्लैट नं. एएएए-04, पश्चिम: अन्न सम्पत्ति, दक्षिण: फ्लैट नं. एएएए-02

हस्ता/-
प्राधिकृत अधिकारी
केन फिन होम्स लि.

दिनांक: 6 सितंबर 2019
स्थान: गार्गावतल

SMART CAPITAL SERVICES LIMITED
Regd. Office: 325, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085
Tel: 011-45689444, Email ID: smartcap.deli@gmail.com
Website: www.smartcapitalservices.in, CIN: L74999DL1994PLC05987

NOTICE ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Twenty Fourth Annual General Meeting of the members of Smart Capital Services Limited ("the Company") will be held on Monday, September 30, 2019 at 03:00 p.m. at 325, IIIrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting").

The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier and electronically to those members who have registered their e-mail address with the Depositories/Company.

The Annual Report for the financial year 2018-19 including the Notice is available on the website of the Company (www.smartcapitalservices.in) and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Sundays and Public Holidays, during business hours up to the date of the Meeting.

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the Agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.smartcapitalservices.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting facility shall commence on Friday, September 27, 2019 from 9:00 a.m. and end on Sunday September 29, 2019 at 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

A person, whose name appears in the Register of Members/Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., Monday September 23, 2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL, for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Member who have cast their vote(s) by remote e-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

RECORD DATE
NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Monday September 23, 2019 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the Annual General Meeting.

For and on behalf of the Board
Smart Capital Services Limited
Sd/-
Kiran Mittal
(Director)
DIN: 00749457

Place: New Delhi
Date: 06.09.2019

BRAND REALTY SERVICES LIMITED
Regd. Office: S-8 & S-2, DDA Shopping Complex, Opp. Pocket-I, Mayur Vihar-I, Delhi-110091
CIN: L74899DL1995PLC064237
Email Id: kamal@brandreality.in; Website: www.brandreality.in
Tel.: 011-22755819

NOTICE

NOTICE is hereby given that 25th Annual General Meeting of the Company will be held on Monday, 30th September, 2019 at 11.00 A.M. at the Registered Office of the Company at S-8 & S-2, DDA SHOPPING COMPLEX, OPP POCKET-I MAYUR VIHAR-I DELHI-110091 to transact the business as set out in the notice of AGM.

The notice alongwith annual report has been dispatched to all the members at their registered address or e-mail lds on 5th September, 2019 and the same is also available on the website of the Company at www.brandreality.in.

In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing remote e-voting facility to its members to cast their vote by electronic means on the resolutions set out in the said notice. The remote e-voting period will begin on Friday, 27th September, 2019 at 9:00 a.m. and end on Sunday, 29th September, 2019 at 5:00 p.m. The shareholders of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 23rd September, 2019 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

Mr. Parveen Rastogi, Practising Company Secretary has been appointed as Scrutinizer for overseeing/conducting the remote e-voting and the voting process in a fair and transparent manner.

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 24th September, 2019 to 30th September, 2019 (Both Day inclusive) for the purpose of the AGM of the Company.

By order of the Board
For BRAND REALTY SERVICES LIMITED
Sd/-
KAMAL MANCHANDA
WHOLE TIME DIRECTOR
DIN: 00027889

Date: 6th September, 2019
Place: Delhi

SCHEDULE I FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF LALIT POLYMERS AND ELECTRONICS LIMITED

RELEVANT PARTICULARS

1 Name of corporate debtor	LALIT POLYMERS AND ELECTRONICS LIMITED
2 Date of incorporation of corporate debtor	18/04/1984
3 Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	REGISTRAR OF COMPANIES, DELHI
4 Corporate identity number / limited liability identity number of corporate debtor	L32109DL1984PLC316708
5 Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	A-9A, Green Park Main New Delhi South Delhi DL 110016 IN
6 Liquidation commencement date of corporate debtor	05.09.2019 Date of Extraordinary General Meeting of the Company approving the Voluntary Liquidation of the Company
7 Name and registration number of the Insolvency professional acting as liquidator	NAME: VINET AGGARWAL (REGISTRATION NO. IBBI/IFA-001/IFP-00475/2017-18/10818)
8 Address and email of the liquidator, as registered with the board	AGRA, VARANASI, UP-221010 EMAIL: vinet63@gmail.com
9 Address and email to be used for correspondence with the liquidator	ADDRESS: B-165, JANGPURA 8, NEW DELHI-110014 EMAIL: vinet63@gmail.com Land line 011-24377675
10 Last date for submission of claims	05.10.2019

Notice is hereby given that LALIT POLYMERS AND ELECTRONICS LIMITED has commenced Voluntary Liquidation on 05th September, 2019. The stakeholders of LALIT POLYMERS AND ELECTRONICS LIMITED are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 05.10.2019, to the liquidator at the address mentioned against item 9.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

VINET AGGARWAL
REG. NO. IBBI/IFA-001/IFP-00475/2017-18/10818
Liquidator of Lalit Polymers and Electronics Limited
Date: 06.09.2019
Place: New Delhi

TENNECO POWERTRAIN
फेडरल-मोगुल आनन्द बिग्यरिंस इंडिया लिमिटेड
CIN: U29199HR2006PLC04326
पंजीकृत कार्यालय: 10वीं माला, पारस टिचन टावर, टावर-बी, गोष्प कोर्स रोड, सेक्टर-54, गुरुग्राम-122002, फोन: +91 124 4784530, फेक्स: +91 124 4292840

सूचना

कम्पनी की 13वीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार, 30 सितम्बर, 2019, प्रातः 10.00 बजे 10 वीं माला, पारस टिचन टावर, टावर बी, गोष्प कोर्स रोड, सेक्टर 54, गुरुग्राम-122002 में आयोजित की जाएगी जिसमें 12वीं एजीएम सूचना दिनांक 02 सितम्बर, 2019 में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। 13वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना तथा रिमोट ई-वोटिंग के साथ उपस्थिति पर्ची एवं प्रोसीक्यूर प्रपत्र तथा वार्षिक रिपोर्ट 2018-19 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिन्हें ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स के पास पंजीकृत है। उपरोक्त सदस्यों की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत प्रक्रिया में उनके पंजीकृत पते पर भेज दी गई है।

कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के प्राधान्यों तथा उक्त नियमावली, यथा संशोधित के नियम 20 के अनुसार विवरण इस प्रकार है:

क) 13वीं एजीएम की सूचना में यथा निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

ख) रिमोट ई-वोटिंग सुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे आरम्भ होगी तथा रविवार, 29 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे बंद होगी। रविवार, 29 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से अथवा 13वीं एजीएम में मतदान के लिए पात्रता सुनिश्चित करने की कट ऑफ तिथि रजिस्ट्रार, 20 सितम्बर, 2019 है।

घ) ऐसे सदस्यों जिन्होंने मतदान करने के रजिस्ट्रार अथवा केवल कट ऑफ तिथि को डिपॉजिटरीज द्वारा प्रथमिष्ठ लाभ भोगी स्थायियों के रजिस्ट्रार में दर्ज हैं, वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा मत पत्र के द्वारा 13वीं एजीएम में मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे।

ङ) ऐसे सदस्यों जिन्होंने सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित किए हों तथा कम्पनी के सदस्य बने हों, तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् सुक्रवार, 20 सितम्बर, 2019 को शेयर धारित करते हों, वे evoting@karvy.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करें लेकिन यदि रिमोट ई-वोटिंग के लिए कट ऑफ तिथि कम्प्यूटर शेयर प्रा. लि. में पहले से ही पंजीकृत हों तो आप अपना मतदान करने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

च) मतदान के माध्यम से मतदान के लिए 13वीं वार्षिक आम बैठक में उपलब्ध कराया जाएगा और सदस्यों को जो बैठक में दूर-दराज के ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान नहीं किया गया है, वे भाग लेने के लिए, मतपत्र पत्रों के माध्यम से बैठक में अपने प्राधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

छ) 13वीं वार्षिक साधारण सभा की सूचना कम्प्यूटर शेयर प्रा. लि. की वेबसाइट <http://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध है।

ज) किसी प्रकार की पूछाछ के लिए सदस्यों के लिए Frequently Asked Questions तथा <http://evoting.karvy.com> के डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिए e-voting यूजर मैनुअल देखें या 1800-3454001 पर कॉल करें।

झ) रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के अपने अधिकार के प्रयोग के बाद भी सदस्यगण साधारण सभा में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें सभा में फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

फेडरल-मोगुल आनन्द बिग्यरिंस इंडिया लिमिटेड के लिए
हस्ता/-
मनाविंदर सिंह कलरा
कम्पनी सचिव

स्थान: गुरुग्राम
दिनांक: 06 सितम्बर, 2018

SHIVKAMAL IMPEX LIMITED
Regd. Office: Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.) New Delhi-110016
Tel: 011-26192964, e-mail: info@shivkamalimpex.com; shiv_kamal@yahoo.com
Website: www.shivkamalimpex.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given pursuant to regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 that the Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on **Friday, September 13, 2019** at 12:30 p.m. at the Registered Office of the Company at Ground Floor, Block-P-7, Green Park (Extn.), New Delhi-110016 Inter-alia, to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended June 30, 2019.

Further, in terms of Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by designated persons under SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulation, 2015, the trading window has been closed for all Designated persons and their immediate relatives from **July 01, 2019 to September 15, 2019** (both days inclusive).

This information may be accessed on the Company's website at <http://www.shivkamalimpex.com> and may also be accessed on the Stock Exchange's website at <http://www.bseindia.com>.

For Shivkamal Impex Limited
Sd/-
Jyoti Gupta
(Company Secretary & Compliance Officer)

Place: New Delhi
Date: 06.09.2019

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to Bank

दि करूर वैश्य बैंक लि.
डिजिटल कार्यालय, 6, तीसरा तल, मेरूडी मिलर नं. 80 के सामने, पीएच आर, कोयल नगर, नई दिल्ली-110005

कच्चा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत जारी सूचि, वित्तीय परिस्थितियों के प्रतिपुनिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित (द्वितीय) अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दि करूर वैश्य बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के लिए पर अधोस्ताहरी ने एक मांग सूचना दिनांक 04.07.2019 जारी की जिसमें कर्जदार 1. मैसर्स फॉयनू टिचन, पति गोपराज हिमांशु गिस्पर, मद्र केरल स्टेट, बी-3, मॉडल टॉउन-2, नूतल, नई दिल्ली-11009, इसके साथ: मद्र केरल स्टेट, जी-41, अदुल फजल पब्लिक-2, विश्वासजी सडक, शाहीन बाग, नई दिल्ली-110025, (2) श्री हिमांशु गिस्पर पुत्र श्री गुरुचरण दास गिस्पर, 17/10, प्रथम तल, अग्रमार्ग, कालकाजी, दिल्ली-110019, (3) श्री रोहित अरोड़ा पुत्र श्री ओम प्रकाश, मकान नं. 3127, गली नं. 4, ओल्ड धरमपुरा, गांधी नगर, दिल्ली-110031 को मांग सूचना में वर्णित तारीख १, 2,62,63,957/40/- (दो करोड़ बासठ लाख तिरसठ हजार नौ सौ सत्तान रूपए एवं चालीस पैसे) का पुर्णगुणता कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए कहा गया।

हालांकि कर्जदार ने रु. 10,50,707.50 (दस लाख पचास हजार सात सौ सात रूपए पचास पैसे) की राशि का भुगतान कर दिया है और 04.09.2019 को जमा किये जाने वाले ब्याज के साथ रु. 2,59,60,418.90 (दो करोड़ उनसठ लाख साठ हजार चार सौ अठारह रूपए एवं नब्बे पैसे) की राशि लोन खाते में बकाया है। कर्जदार मांग सूचना में वर्णित राशि का पुर्णगुणता करने में असफल रहे हैं इसलिए एतद्वारा विशेषकर कर्जदार एक आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोस्ताहरी ने कथित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित सम्पत्ति को 5 सितम्बर को अपने कब्जे में ले लिया है। विशेषकर कर्जदार तथा आम जनता को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोस्ताहरी ने सूचना को वापस लेने में विफल रहे, अतः एतद्वारा अधोस्ताहरी, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 6 सितंबर, 2019 को अधोस्ताहरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधोस्ताहरी ने यहाँ नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है। अधोस्ताहरी का ब्याज प्रतिभूति परिस्थितियों को विनियमित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 1

JAGAN LAMPS LIMITED
Narela Piao Manihari Road, Kundli, District: Sonapat-131028, Haryana
Notice of 27th Annual General Meeting, Book Closure & Remote E-Voting
PUBLIC NOTICE
NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT
1. The 27th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Monday, 30th day of September, 2019 at 10.00 A.M. at Narela Piao Manihari Road, Kundli, District: Sonapat-131028, Haryana, India to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated 27th August, 2019. In addition to that full Annual Report is available on the company's website i.e. www.jaganlamps.com the above documents are open for inspection for the members at the registered office of the Company during the business hours on any working day of the Company up to the date of Annual General Meeting.

PACT INDUSTRIES LIMITED
303 Hotel The Taksonz, Opp. Railway Station - Ludhiana (Punjab)
CIN: 181019P1993PLC0013193 Phone: 0161-2731851/852
Email: pactindustries1993@gmail.com Website: www.pactindustries.com
NOTICE OF 26th ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE
Notice is hereby given that:
1. The 26th Annual General Meeting of Members of the company will be held on Monday, 30th September, 2019 at 11:00a.m. at the 303 Hotel The Taksonz, Opp. Railway Station, Ludhiana- Punjab to transact the business as set forth in the Notice of the meeting dated 04th September, 2019.

Notice
Pvt. Ltd. UDC-2
Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XII of the Companies Act, 2013 and sub-rule 4(1) of the Companies Act, 2013.
1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 386 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made for the registration under Part I of Chapter XII of the Companies Act, 2013, as a company limited by shares.

UJALA COMMERCIALS LIMITED
CIN: L51909DL1985PLC021397
Regd. Office: A-6/343B, 1st Floor, Janita Flats, Paschim Vihar, New Delhi-110063
E-mail: csujala.commercial@gmail.com Website: www.ujalacom.com
Phone: 011-49879687
NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION
NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the members of Ujala Commercial Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 27, 2019 at 10.00 AM at Aps ara Grand Banquets, A-1/20B, Paschim Vihar, Rohtak Road, New Delhi-110063, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

ALIROX ABRASIVES LIMITED
Regd. Office: A, Scindia House, New Delhi-110001
CIN: L74899DL1944PLC000759
Tel: +91-11-23457100; Fax: +91-11-23324136
E-mail: smccil@dalmiarf.com; Website: www.alirox.com
NOTICE
The 75th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 30, 2019 at 10.30 a.m. at 4, Scindia House, New Delhi-110 001. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer books of Equity Shares of the Company will remain closed from Tuesday, September 24, 2019 to Monday, September 30, 2019 (both days inclusive). Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is offering to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Annual General Meeting by electronic means and the member may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting (remote e-voting).

Rama Paper Mills Limited
4th Km. Stone Najibabad Road Kiratpur-246731 District Bijnor U.P.
CIN: L27104UP1985PLC007556
Website: www.ramapaper.com E-mail: cs@ramapaper.com
NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND ELECTRONIC VOTING INFORMATION OF RAMA PAPER MILLS LIMITED
Annual General Meeting: Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Saturday, the 28th September, 2019 at 10.00 A.M. at 4th Km Stone Najibabad Road Kiratpur Bijnor U.P. 246731 for the purpose of transacting the business mentioned in the Notice. The said AGM, e-voting instructions and Annual report for the year 2018-2019 have been sent to the members of the company electronically whose email-ids are registered with the depositories. The said Notice, e-voting instructions and Annual report for the year 2018-2019 have also been sent in physical mode to all other members at their registered address by way of permitted mode. A copy of Annual Report 2018-2019 along with the AGM notice and the Instructions for Electronic Voting (e-voting) will also be made available on the website of the company (www.ramapaper.com).

PTC INDUSTRIES
Aspire. Innovate. Achieve.
CIN: L271090P1963PLC002931
Regd. Office: AMTC, NH-25A Sarai Shahjadi
Lucknow-227101, Uttar Pradesh, India. Phone: 0522-7111017; Fax: 0522-7111020. Email: ptc@ptcil.com. Website: www.ptcil.com
NOTICE OF 56th ANNUAL GENERAL MEETING
Notice is hereby given that the 56th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Saturday, September 28, 2019 at 3:00 pm at the registered office of the Company situated at Advanced Manufacturing and Technology Centre, NH-25A Sarai Shahjadi Lucknow-227101, Uttar Pradesh, India. Notice of the meeting (along with explanatory statement) setting out the business proposed to be transacted thereat and Annual Report for the year ended at March 31, 2019, has been dispatched to the members. Notice of the meeting is available at Company's website www.ptcil.com and copies of Notice and Annual Report are also available for inspection at the registered office of the Company on all working days, during the business hours up to the date of Annual General Meeting. The Company has completed dispatch of the Annual Report, containing Notice, for the year ended at March 31, 2019 on September 04, 2019.

For Ujala Commercial Limited
Sd/- Ganesh Ray Director (DIN: 00463635)
Dated: 06.09.2019
Place: New Delhi
NOTICE OF 33rd ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION
NOTICE is hereby given that the 33rd Annual General Meeting (AGM) of the members of Ujala Commercial Limited ("the Company") is scheduled to be held on Friday, September 27, 2019 at 10.00 AM at Aps ara Grand Banquets, A-1/20B, Paschim Vihar, Rohtak Road, New Delhi-110063, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM.

KUWER INDUSTRIES LIMITED
CIN: L74899DL1993PLC056627
Regd. Off: D- 1004, First Floor, New Friends Colony, New Delhi - 110065.
Tel: 011-2684 8636
Plant Address: A/71/2, Sector 58, Noida, U.P. 201301.
Tel: 0120-2580 088/937 FAX: 0120-2580514
Email: investor.kuwer@gmail.com, info@kuwer.com Web: www.kuwer.com
NOTICE OF 27th ANNUAL GENERAL MEETING
Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the members of the company will be held on Monday, the 30th September, 2019 at 11.30 A.M. at 339, Kishar Garh, Vasant Kunj, New Delhi 110070 to transact the businesses mentioned in the Notice of said AGM, which has been dispatched to the Members on 05th September, 2019, along with the Annual Report for the year ended 31st March, 2019. Further, Pursuant to section 91 of the companies act, 2013 the register of members and transfer book will remain closed from Tuesday, 24th September, 2019 to Monday, 30th September, 2019 (Both days inclusive) for the purpose of 27th AGM.

Bank of Maharashtra
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक
POSSESSION NOTICE [RULE-8 (1)] (For Immovable Property)
WHEREAS, The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Maharashtra under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of the powers conferred under Sub-section (12) of Section 13 read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002, issued a Demand Notice calling upon the borrowers to repay the Bank's dues within 60 days from the date of receipt of the said Notice. The notice/s was sent by Regd. Post, Speed Post, Dasti and Courier. The borrowers/ guarantors having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules of the dates given as in the table. The borrower/s/ guarantor/s in particular and the public in general, is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of Bank of Maharashtra for an amount here mentioned below.

For PTC Industries Limited
Sd/- (Anuj Nigam)
Company Secretary & Compliance Officer
Place: Lucknow
Date: 06.09.2019
NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND ELECTRONIC VOTING INFORMATION OF RAMA PAPER MILLS LIMITED
Annual General Meeting: Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting of the members of the Company will be held on Saturday, the 28th September, 2019 at 10.00 A.M. at 4th Km Stone Najibabad Road Kiratpur Bijnor U.P. 246731 for the purpose of transacting the business mentioned in the Notice. The said AGM, e-voting instructions and Annual report for the year 2018-2019 have been sent to the members of the company electronically whose email-ids are registered with the depositories. The said Notice, e-voting instructions and Annual report for the year 2018-2019 have also been sent in physical mode to all other members at their registered address by way of permitted mode. A copy of Annual Report 2018-2019 along with the AGM notice and the Instructions for Electronic Voting (e-voting) will also be made available on the website of the company (www.ramapaper.com).

ANANT RAJ LIMITED
(Formerly known as ANANT RAJ INDUSTRIES LTD.)
CIN: L45400HR1985PLC021622
Regd. Office: No. CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana-122015. Tel: (0124) 4268817; Head Office: H-65, Connaught Circus, New Delhi-110001. Tel: 011-43034000; Fax: 011-43382879
E-mail: manojpahwa@anantrajlimited.com, Website: www.anantrajlimited.com
NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE
NOTICE
1. NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting (34th AGM) of the Members of Anant Raj Limited will be held on Monday, September 30, 2019 at 10.30 A.M. at the Registered Office of the Company at Plot No. CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana-122015 to transact the businesses as set out in Notice of 34th AGM.

For Kuwer Industries Limited
Sd/- Tarun Aggarwal Joint Managing Director DIN: 01320462
Date: 05.09.2019
CCL INTERNATIONAL LIMITED
CIN: L26940DL1991PLC044520
Regd. Office: M-4, Gupta Tower, B-1/1, Commercial Complex, Azadpur, New Delhi-110033
Phone No.: 011-42142258
E-mail: cmosec@ccl.com Website: www.evotcreindia.com
NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION
The notice is hereby given that:
1. The 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 30th September, 2019 at 11.00 A.M. at "Hotel Golden Palm" at Plot No 6C, Mandawali, Fazalpur Delhi-92, to transact the Ordinary and Special Business, as set forth in the Notice of AGM.

Bank of Maharashtra
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक
POSSESSION NOTICE [RULE-8 (1)] (For Immovable Property)
WHEREAS, The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Maharashtra under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of the powers conferred under Sub-section (12) of Section 13 read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002, issued a Demand Notice calling upon the borrowers to repay the Bank's dues within 60 days from the date of receipt of the said Notice. The notice/s was sent by Regd. Post, Speed Post, Dasti and Courier. The borrowers/ guarantors having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules of the dates given as in the table. The borrower/s/ guarantor/s in particular and the public in general, is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of Bank of Maharashtra for an amount here mentioned below.

अंचल कार्यालय, लखनऊ
प्लॉट सं.-12, सेक्टर-9, विकास नगर, लखनऊ-226022
संख्या 099, लखनऊ, लखनऊ-226022
POSSESSION NOTICE [RULE-8 (1)] (For Immovable Property)
WHEREAS, The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of Maharashtra under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of the powers conferred under Sub-section (12) of Section 13 read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002, issued a Demand Notice calling upon the borrowers to repay the Bank's dues within 60 days from the date of receipt of the said Notice. The notice/s was sent by Regd. Post, Speed Post, Dasti and Courier. The borrowers/ guarantors having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules of the dates given as in the table. The borrower/s/ guarantor/s in particular and the public in general, is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of Bank of Maharashtra for an amount here mentioned below.

ANANT RAJ LIMITED
(Formerly known as ANANT RAJ INDUSTRIES LTD.)
CIN: L45400HR1985PLC021622
Regd. Office: No. CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana-122015. Tel: (0124) 4268817; Head Office: H-65, Connaught Circus, New Delhi-110001. Tel: 011-43034000; Fax: 011-43382879
E-mail: manojpahwa@anantrajlimited.com, Website: www.anantrajlimited.com
NOTICE OF THE 34TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE
NOTICE
1. NOTICE is hereby given that the 34th Annual General Meeting (34th AGM) of the Members of Anant Raj Limited will be held on Monday, September 30, 2019 at 10.30 A.M. at the Registered Office of the Company at Plot No. CP-1, Sector-8, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana-122015 to transact the businesses as set out in Notice of 34th AGM.

FOR CCL INTERNATIONAL LIMITED
Sd/- Rama Gupta
Joint Managing Director
Date: 06.09.2019
CCL INTERNATIONAL LIMITED
CIN: L26940DL1991PLC044520
Regd. Office: M-4, Gupta Tower, B-1/1, Commercial Complex, Azadpur, New Delhi-110033
Phone No.: 011-42142258
E-mail: cmosec@ccl.com Website: www.evotcreindia.com
NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION
The notice is hereby given that:
1. The 28th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, 30th September, 2019 at 11.00 A.M. at "Hotel Golden Palm" at Plot No 6C, Mandawali, Fazalpur Delhi-92, to transact the Ordinary and Special Business, as set forth in the Notice of AGM.